




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 107]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1979/चैत्र 12, 1901

No. 107]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1979/CHAITRA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिस्वचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 328(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिस्वचना सं. का. आ. 63(असा.), तारीख 3 फरवरी, 1978 द्वारा यथा-उपान्तरित सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 8) की धारा 146 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिख गुरुद्वारा निर्वाचन जांच नियम, 1925 में और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सिख गुरुद्वारा निर्वाचन जांच (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिख गुरुद्वारा निर्वाचन जांच नियम, 1925 में,—

(1) नियम 2 में,—

(क) खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,  
अर्थात् :—

“(4) ‘भूट आचरण’ से, ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जिस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के भाग 7 के अध्याय 1 के उपबंधों के अधीन भूट आचरण समझा जाता है;”

(ख) खण्ड (5) और (7) में, “सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1954” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन नियम, 1959” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(2) नियम 4 में “पंजाब राजपत्र” शब्दों के स्थान पर, “राजपत्र” शब्द रखा जाएगा,

(3) नियम 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में “पंजाब सरकार” शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आए हैं, “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे,

(4) नियम 9 में,—

(क) उपनियम (2) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर, “वह सरकार” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में, “सरकार” शब्द के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एस. 13018/3/79-एस आर]

एस. शान्ति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1979

**G.S.R. 328(E).**—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), as modified by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 63(E), dated the 3rd February, 1978, issued under sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sikh Gurdwaras Election Enquiries Rules, 1925, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sikh Gurdwaras Election Enquiries (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurdwaras Election Enquiries Rules, 1925,—

(1) in rule 2,—

(a) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely :—

"(4) 'Corrupt practice' means any act deemed to be a corrupt practice under the provisions of Chapter 1 of Part VII of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951);"

(b) in clauses (5) and (7), for the words and figure "the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1954", the words and figure "the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959" shall be substituted;

(2) in rule 4, for the words "Punjab Gazette", the words "Official Gazette" shall be substituted;

(3) in rules 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 for the words "Punjab Government", wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted;

(4) in rule 9,—

(a) in sub-rule (2), for the words "the Government", the words "that Government" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the words "the Government", the words "Central Government" shall be substituted.

[No. S-13016/3/79-SR]

S. SANTHI, Jt. Secy.